

न्यूजीलैण्ड इजिप्ट भूटान एवं भारत के सैन्य अधिकारी -  
काजरी शोध से रू-ब-रू हुए



जोधपुर 20 मार्च

राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली के 58 वें आर्थिक सुरक्षा पाठ्यक्रम के तहत न्यूजीलैण्ड इजिप्ट भारत भूटान के बिग्रेडियर स्तर के उच्च सैन्य अधिकारियों ने मेजर जनरल एम0वी0 चन्द्रन के नेतृत्व में काजरी शोध क्षेत्रों का अवलोकन किया । काजरी के प्रभारी निदेशक डा0 प्रवीण भट्टनागर ने कहा कि रेगिस्तान में अनिश्चित वर्षा उच्च तापमान तीव्र वायुवेग सीमित प्राकृतिक संसाधन तथा मानव एवं पशुधन की बहुतायत के कारण चुनौतियों से परिपूर्ण रहा । वैज्ञानिकों की शोध उपलब्धियों के द्वारा मरूस्थल पर हरियाली आच्छादित की गई । वर्षा जल संग्रहण चारागाह विकास फलौउद्यानिकी कृषिवानिकी आदि तकनीकियों से क्षेत्र में विकास को गति मिली । उन्होंने संस्थान की गतिवधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी । कार्यक्रम समन्वयक एवं प्रधान वैज्ञानिक डा0 आर0के0 कौल ने बताया कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के द्वारा किसानों की आमदनी बढे युवाओं को गाव स्तर पर रोजगार मिले इसके लिए अनेक तकनीकियां विकसित की गई । किसानों महिलाओं युवाओं को समय-समय पर प्रशिक्षण देकर उनकी कौशलता बढायी जाती है ताकि वे दक्षतापूर्वक कार्य कर अधिक आमदनी अर्जित कर, लाभान्वित हों । सैन्य अधिकारियों ने चारागाह प्रबन्धन संरक्षित खेती चारा चुकन्दर राल एवं गौद उत्पादन सोलर फार्मिंग वर्षा जल संग्रहण नेपियर घास फलौउद्यानिकी डेयरी इकाई के क्षेत्रों का भ्रमण किया । इस अवसर पर सैन्य अधिकारियों को काजरी द्वारा विकसित तकनीकियों एवं उपलब्धियों पर फिल्म भी दिखाई गई । सैन्य अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों की बैठक हुई जिसमें आर्थिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ । विभागाध्यक्ष डा0सी0बी0 पाण्डे डा0 आर0के0 भट्ट डा0 बी0के0 माथुर डा0 प्रतिभा तिवारी डा0

दिलिप जैन डा० आर० एस० त्रिपाठी डा० उदय बर्मन ने अपने-अपने विभागों की गतिविधियों पर चर्चा की ।

यात्रा समन्वयक डा० राजीव एस० चवान बताया कि विभिन्न देशों के सैन्य अधिकारियों को यहां के प्राकृतिक संसाधन आर्थिक सामाजिक रहन-सहन संस्कृति कामकाज आदि गतिविधियों से रू-ब-रू करवाया जाता है ताकि वे इन्हें नजदीकी से देखें परखें समझे एवं भविष्य में देश के आर्थिक विकास हेतु उनका उपयोग हो । उन्होंने संस्थान में हुए शोध कार्यों को सराहा तथा काजरी निदेशक को धन्यवाद ज्ञापित किया ।